

# Program Guidebook

The Future : Shaping Tomorrow with Emerging Technologies  
**SOAID001**



Presented by  
**Department of Online and Distance Education**  
**SIN School of AI**



# Table of Contents

S.No	Content Details	Page No
1	Company Summary	3
2	Mission and Vision	5
3	Media Coverage	6
4	About Instructor	8
5	Course Description	9
6	Course Content	10
7	Features and Benefits	13
8	Cost Breakdown	14
9	Course Certification	14
10	Enrollment Process	15
11	Terms and Conditions	16
12	Contact us	18



# SIN Education and Technologies Pvt. Ltd

At SIN School of AI, a division of SIN Education and Technology Private Limited, we are dedicated to fostering innovation and equipping learners with the skills to thrive in the AI-driven world. Leveraging the expertise and excellence of SIN Technologies, our programs are designed to deliver industry-relevant education in Artificial Intelligence, Prompt Engineering, and cutting-edge technological applications.

As a certified company with ISO 9001:2015 accreditation, recognized by the Egyptian Accreditation Council and the International Accreditation Forum, we uphold the highest standards in quality and excellence. We are proud to be registered under the Startup India Program by the Government of India, a recognized MSME-registered company, and one of PedalStart's Top 25 Startups in Rajasthan.

Established with a vision to revolutionize industries, SIN Technologies is your trusted partner in harnessing the power of AI and technology to unlock new possibilities. Together, let's build the future of innovation.




Er Harshvardhan Purohit  
FOUNDER & CEO

## Our Certifications & Accreditations



# SIN SCHOOL OF AI

The team at SIN School of AI ensures a collaborative and results-oriented approach, empowering students, professionals, and organizations with tailored programs in Artificial Intelligence, Prompt Engineering, and emerging technologies. Together, the management strives to foster innovation, build long-lasting connections, and drive transformative change in the field of AI education and application.

## Organization and Management



**Shiv Prakash Bohra**  
CFO



**Er Harshvardhan**  
CEO



**Dr Amit Khare**  
SENIOR ADVISOR



**Prateek Vyas**  
DEVELOPMENT  
TEAM



**Aditya Purohit**  
GRAPHICS  
TEAM



**Dr Reva Mishra**  
SENIOR  
ADVISOR

# Mission and Vision



## Mission

To empower individuals and organizations by delivering innovative AI education and training that enhances skills, fosters creativity, and drives growth through cutting-edge knowledge and tailored learning experiences in Artificial Intelligence and Prompt Engineering.



## Vision

To be a global leader in AI education, transforming the future of learning and innovation by equipping individuals and organizations with the skills and knowledge to create sustainable growth and excellence in a rapidly evolving digital world.



# Media Coverage & Impact So Far



जोधपुर 20-04-2025

## दैनिक • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स ऑफ फ्यूचर पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित युवाओं को बताए एआई के काम के तरीके

कम्युनिटी रिपोर्टर | जोधपुर

आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तकनीक के हर क्षेत्र में क्रांति लाने के साथ ही युवाओं को भी प्रेरित किया जा रहा है। भारतीय जैन संघटना, एसआईएन स्कूल ऑफ एआई की ओर से दो दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के युवा शामिल हुए। निजी इंस्टीट्यूट में आयोजित हुई कार्यशाला में युवाओं को पिक्चरी सॉल्यू एआई से जुड़ी अनेक जानकारी दी गई।

राज्य सचिव मनीष जैन ने बताया कि एआई अपने बने समय में किस तरह कार्य करने

के साथ ही जग-जग प्रवेश होगा। इनमें चैट जीवैटी से जानकारी साझा करने के साथ ट्यूब की जानकारी दी गई। हार्बरडन पुरोहित की ओर से आने वाले समय में डिजिटल युग में एआई के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाने से लेकर सभी कार्य किस तरह से हल्वर होंगे, जानकारीयों सहित उपयोगिता से अवगत करवाया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को समय के साथ प्रोत्साहित करने के साथ ही चैट जीवैटी, पिक्चरी सॉल्यू जानकारी से रुबरु करवाया गया, जिससे युवा आगे बढ़कर राह की पहचान के रूप में समय हो सके।

एआई के काम सहित परिणामों की जानकारीयों से करवाया रुक



AI सिस्टम डेटा का विश्लेषण के साथ उसके काम-काज के तरीकों की जानकारी दी। प्रिंता जैन ने बताया कि ऐसे कार्यशाला विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुतबोली है। आने वाले समय पुरा डिजिटल युग का हो होगा, ऐसे में अभी से युवाओं को तैयार किया जाए, जिससे समय के साथ परिवर्तन लया जा सके। संघटना के जोधपुर, सिल्लान्ध अन्तिम लल्लानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य में होने वाले परिवर्तन, जोधपुर मंडललान्ध मंडल सिंघवी की ओर से AI सिस्टम डेटा का विश्लेषण करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपने अनुभव से सीख सकते हैं। संघटन पिछले 40 वर्ष से विभिन्न क्षेत्रों जैसे अल्पय रहल, चल निक्करी के पुनर्जीवन और मूल्य विश्व में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। मंडल सचिव वंदन मंडल ने धन्यवाद जताया।

## ■ एआई और बिजनेस इनोवेशन मीटअप 9 को

जोधपुर @ पत्रिका. एआई और बिजनेस इनोवेशन पर 9 मार्च, रविवार को दोपहर 2 से 4 बजे तक आईस्टार्ट नेस्ट में मीटअप का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को मीटअप का पोस्टर विमोचन किया गया। संयोजक हर्षवर्धन ने बताया कि कार्यक्रम में नेटवर्किंग और स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए चर्चा की जाएगी। इस मीटअप के माध्यम से नए स्टार्टअप कर रहे



युवा एआई टूल्स और टेक्नोलॉजी डिजिटल मार्केटिंग हैक्स, बिजनेस ट्रिक्स, फाइनेंस मैनेजमेंट जैसे कई जरूरी बातें सीख सकेंगे मीटअप में प्रवेश निःशुल्क रहेगा

हर्षवर्धन और राघव अपनी टीम के साथ स्टूडेंट को दे रहे निःशुल्क प्रशिक्षण

# स्टूडेंट्स को अंतरिक्ष विज्ञान और एआई में एक्सपर्ट बना रहे शहर के यंगस्टर्स



जोधपुर. इसरो और नासा तक हमारा शहर पहचाना जाए। एआई टेक्नोलॉजी में शहर के स्टूडेंट एक्सपर्ट हों। शहर के कुछ युवा इस मुहिम में जुटे हैं। वे अपनी टीम के साथ मिलकर बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। राघव शर्मा और उनकी टीम बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करा रही है। वहीं हर्षवर्धन पुरोहित अपनी टीम के साथ मिलकर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को एआई और निःशुल्क जानकारी दे रहे हैं।

## रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका

इंजीनियर हर्षवर्धन पुरोहित अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे भारत के स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के बीच एआई जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क एआई स्किल डवलपमेंट सर्टिफिकेट बेस्ड वर्कशॉप आयोजित कर भविष्य में करियर ऑप्शन बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। एआई और मशीन लर्निंग के तहत एआई के मूल सिद्धांत और इससे वास्तविक उपयोग सिखा रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स को रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी



मौका मिल रहा है। पुरोहित और उनकी टीम परसोना पैटर्न, वेन ऑफ थोट और गेम बेस्ड प्रॉन्ट पर फोकस कर रहे हैं। प्रतीक व्यास, आदित्य पुरोहित और मोहित बाहेली के साथ मिलकर एआई शिक्षा और जागरूकता के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। गेम बेस्ड लर्निंग मेथड में 70 प्रतिशत प्रेक्टिकल होता है।



राजस्थान पत्रिका  
जोधपुर, राजकोट, 03 जनवरी 2025

## एआई की मदद से गैजेट्स रखे सुरक्षित, पर्सनल डाटा को लीक होने से बचाने के लिए युवा हो रहे अवैध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स सुरक्षा के लिए हो रहे गेम चेंजर साबित



जोधपुर. राघव निक्करी और मंडल सिंघवी को लेकर शहर के युवाओं में एआई की सुरक्षा के अवैध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स सुरक्षा के लिए हो रहे गेम चेंजर साबित



हर्षवर्धन पुरोहित, एक्सपर्ट

बिजनेस न्यूज

## PROGRAM GUIDEBOOK



### US SUNDAY जोधपुर, रविवार, 16 मार्च, 2025 राजस्थान पत्रिका

#### भविष्य में बिजनेस करना होगा आसान, युवाओं को मिलेंगे बेहतर करियर ऑप्शन एआइ से मिल रहे बिजनेस ग्रोथ और मार्केटिंग के आइडिया

जोधपुर @ पत्रिका प्लस, एआइ का प्रयोग और उससे हो रहे बदलाव हर वर्ग के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं। शहर के गंगरस्त एआइ, टेक्नोलॉजि, बिजनेस आइडिया और मार्केटिंग जैसे कई मुख्य बिंदु पर चर्चा कर बिजनेस ग्रोथ और एआइ से होने वाले प्रभाव और बदलाव को उपभोगी बना रहे हैं। साथ ही एआइ और एआइ टेक्नोलॉजी सीखने के बाद युवा अपने करियर के लिए भी यह टेक्नोलॉजी उपयोगी बना रहे हैं।

हाल ही शहर के आईएनटीआई, जोधपुर ऑडिटोरियम में भी हुए मीटअप में बिजनेस, एआइ और स्टार्टअप की संभावनाओं पर चर्चा की। डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि यह मीटअप पहली बार शहर के गंगरस्त के लिए और बिजनेस की शुरुआत

और विलवर, स्टार्टअप के लिए मार्केटिंग के नए युद्धकौशल, फाइनेंस का महत्व और राशी वित्तीय रत्ननेलिटी व योजना को उपयोगित जैसे विभिन्न पीछे युवाओं ने समझे और चर्चा की।

#### संभावनाओं पर चर्चा

आयोजित किया गया, जिसमें शहर के करीब 80 युवाओं ने भाग लिया।

मनीषा चौहान ने बताया कि मीटअप में एआइ और स्टार्टअप के बढ़ते अवसर, टेक्नोलॉजि का महत्व, बिजनेस की शुरुआत



#### बच्चों को सिखाएंगे

बदलती टेक्नोलॉजी से कई काम आसान हो गए हैं। एआइ के बारे में जानने के बाद अब मैं अपने बच्चों को भी गणितीय लुईटों में एआइ टेक्नोलॉजी सेबित करूँ।

सीखाउंगे।

नवीन आचार्य

#### आसानी हुई

एआइ के प्रयोग से बिजनेस में काम आसान हो गया है। अब एआइ के माध्यम से मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूँ। बिजनेस में एआइ का उपयोग करने का सपना है।

मार्केटिंग के आसान टिप्स मिलते हैं।

फिरोज खान

#### एआइ फैंडली

टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना जरूरी है, लेकिन अब एआइ से भी एआइ फ्रेंडली होना भी जरूरी है। एआइ के प्रयोग से अब युवा अपने हर कामों को कर सकते हैं।


संकेतों।

नीतू प्रतीति

#### करियर ऑप्शन

एआइ टेक्नोलॉजी से युवाओं के लिए करियर ऑप्शन बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही एआइ टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस में बिजनेस करना भी आसान होगा। यहाँ आज हर कोई कर सकता है।

प्रतिभा व्यास



16/03/2025, L.Jodhpur City, Page : 12



# About Instructor

**Er. Harshvardhan Purohit** is an AI visionary, **B.Tech Gold Medalist in Artificial Intelligence and Machine Learning from Bikaner Technical University** and Stanford University online AI certified , IBM-certified AI professional, and the Founder of SIN Technologies.

He has trained over 25,000 students and professionals across industries and is leading the charge in integrating AI into education, branding, and enterprise operations. As Director of the SIN School of AI, he helps institutions and businesses build AI-powered, scalable growth models.



# Course Details

The Future : Shaping Tomorrow with Emerging Technologies

## Course Description

In an era where technological advancements are rapidly transforming industries and societies, understanding and leveraging emerging technologies is crucial. This course offers a comprehensive exploration of cutting-edge technologies that are shaping our future, including Data Analysis , Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Data Science (DS), Blockchain , Internet of Things (IoT) and Drone Technology.

Through a structured curriculum comprising ten in-depth modules and a final integrative module, learners will delve into each technology's fundamentals, applications, and implications. The course emphasizes real-world case studies, interactive quizzes, and practical insights to ensure a robust understanding of how these technologies intersect and influence various sectors such as healthcare, agriculture, education, and manufacturing.

The final module synthesizes the knowledge acquired, focusing on predicting emerging technological trends, assessing their impact on industries, and highlighting the importance of adaptability in tech careers. Learners will engage in discussions on future trends, analyze case studies, and reflect on key learnings to prepare for proactive engagement in technology-driven environments.

By the end of this course, participants will have a holistic understanding of emerging technologies and be equipped with the skills to navigate and contribute to the evolving technological landscape.



# Course Content

## Module 1 : Introduction

- Welcome
- **The Future : Shaping Tomorrow with Emerging Technologies (Video Lecture)**
- **Meet your instructor (Video)**
- The Future Tech Glossary
- Course Syllabus

## Module 2 : Data Analysis - The Backbone of Decision Making

- **Deep Dive into Data Analysis (Video Lecture)**
- Hello Data Analysis ! ( article)
- Why to Learn Data Analysis ? (article)
- Where is Data Analysis Used ? (article)
- Roadmap to Learn Data Analysis (article)
- Tools to Get Started with Data Analysis (article)
- **Graded Quiz (Min 60% for Passing)**

## Module 3 : Artificial Intelligence , ML and Data Science

- **Artificial Intelligence , ML and Data Science (Video Lecture)**
- Hello Artificial Intelligence ! ( article)
- Why to Learn Artificial Intelligence ? (article)
- Where is Artificial Intelligence Used ? (article)
- Roadmap to Learn Artificial Intelligence (article)
- Tools to Get Started with Artificial Intelligence (article)
- Hello Machine Learning ! ( article)
- Why to Learn Machine Learning ? (article)
- Where is Machine Learning Used ? (article)
- Roadmap to Learn Machine Learning (article)
- Tools to Get Started with Machine Learning (article)
- Hello Data Science ! ( article)
- Why to Learn Data Science ? (article)
- Where is Data Science Used ? (article)
- Roadmap to Learn Data Science (article)
- Tools to Get Started with Data Science (article)
- **Graded Quiz (Min 60% for Passing)**

## Course Content

### Module 4 : Computer Vision - Teaching Machines to See

- **Unlocking the Power of Computer Vision (Video Lecture)**
- Hello Computer Vision ! ( article)
- Why to Learn Computer Vision ? (article)
- Where is Computer Vision Used ? (article)
- Roadmap to Learn Computer Vision (article)
- Tools to Get Started with Computer Vision (article)
- **Graded Quiz (Min 60% for Passing)**

### Module 5 : Natural Language Processing - Talk with Machines

- **Natural Language Processing (NLP) - Powering Conversations (Video Lecture)**
- Hello Natural Language Processing (NLP) ! ( article)
- Why to Learn Natural Language Processing (NLP) ? (article)
- Where is Natural Language Processing (NLP) Used ? (article)
- Roadmap to Learn Natural Language Processing (NLP) (article)
- Tools to Get Started with Natural Language Processing (article)
- **Graded Quiz (Min 60% for Passing)**

### Module 6 : Internet of Things (IoT) - Connecting with World

- **Internet of Things (IoT) - Connecting the Unconnected (Video Lecture)**
- Hello Internet of Things (IoT) ! ( article)
- Why to Learn Internet of Things (IoT) ? (article)
- Where is Internet of Things (IoT) Used ? (article)
- Roadmap to Learn Internet of Things (IoT) (article)
- Tools to Get Started with Internet of Things (IoT) (article)
- **Graded Quiz (Min 60% for Passing)**

### Module 7 : Blockchain - The Future of Secure Transactions

- **Blockchain - The Future of Secure Transactions (Video Lecture)**
- Hello Blockchain ! ( article)
- Why to Learn Blockchain ? (article)
- Where is Blockchain Used ? (article)
- Roadmap to Learn Blockchain (article)
- Tools to Get Started with Blockchain (article)
- **Graded Quiz (Min 60% for Passing)**

## Course Content

### Module 8 : AR & VR - Redefining Reality

- **Beyond AR & VR - Exploring Emerging Technologies (Video Lecture)**
- Hello Augmented Reality (AR) ! ( article)
- Why to Learn Augmented Reality (AR) ? (article)
- Where is Augmented Reality (AR) Used ? (article)
- Roadmap to Learn Augmented Reality (AR) (article)
- Tools to Get Started with Augmented Reality (AR) (article)
- Hello Virtual Reality (VR) ! ( article)
- Why to Learn Virtual Reality (VR) ? (article)
- Where is Virtual Reality (VR) Used ? (article)
- Roadmap to Learn Virtual Reality (VR) (article)
- Tools to Get Started with Virtual Reality (VR) (article)
- HiFi to Mixed Reality (MR) ! ( article)
- **Graded Quiz (Min 60% for Passing)**

### Module 9 : Drone Technology - Redefining Mobility

- **Drone Intelligence : Shaping the Future of Mobility (Video Lecture)**
- Hello Drone Technologies ! ( article)
- Why to Learn Drone Technologies ? (article)
- Where is Drone Technologies Used ? (article)
- Roadmap to Learn Drone Technologies (article)
- Tools to Get Started with Drone Technologies (article)
- **Graded Quiz (Min 60% for Passing)**

### Module 10 : Final Module - Synthesizing Emerging Technologies

- Synthesizing Emerging Technologies - Insights & Future (Video Lecture)
- Final Message
- Final Graded Quiz (Min 70% for Passing)



## Features and Benefits

### Self-Paced Online Learning

This course offers the flexibility to learn at your own pace, allowing you to balance your studies with personal and professional commitments.

### Comprehensive Curriculum

Covering key emerging technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, Virtual Reality, Augmented Reality, Data Science, and Drone Technology, the course provides in-depth knowledge and practical insights into each area.

### Certification Upon Completion

Learners will receive a recognized certificate from the SIN Center of Online and Distance Education, validating their understanding and proficiency in emerging technologies.

### Exclusive Community Access

Enrollees gain access to a dedicated online community, fostering collaboration, discussion, and networking opportunities with peers and industry professionals.

### Interactive Assessments

Each module includes quizzes and assessments designed to reinforce learning and ensure comprehension of the material.

### Flexibility and Convenience

Study anytime and anywhere, making it ideal for working professionals, students, and individuals with varying schedules.

### Career Advancement

Enhance your resume and skill set, positioning yourself for opportunities in tech-driven industries and roles.

### Cost-Effective Learning

Eliminate commuting and accommodation expenses associated with traditional learning, making education more affordable.

### Continuous Access to Resources


Benefit from ongoing access to course materials and community discussions, supporting lifelong learning and development.

### Global Networking Opportunities

Connect with a diverse group of learners and professionals, expanding your professional network and perspectives.

# Cost Breakdown

Includes access to all course materials, recorded Modules, animated and infographic based learning materials, and certification upon completion.

Total Project Cost in INR	
Cost per Student	1500 Rs per Student
Course Benefits Breakdown	
Course Materials	
LMS Access	
Quizzes and Certification	
SOAI Community Access + Networking Support	

# Course Certification

By the end of this Course you will be Receiving the given below prestigious certificate from Department of Online and Distance Education SIN School of AI.



# Enrollment Process

After enrolling, students will get access to the course content and as after the completion of each module you will get an graded quiz and in the end after final graded quiz you will be awarded with the certification and badge.

- **Visit the Course Page**
  - Navigate to the official course page on the Center of Online and Distance Education's platform.
- **Click on "Enroll Now"**
  - Select the "Enroll Now" button to initiate the enrollment process.
- **Create or Log into Your Account**
  - If you're a new user, sign up by providing the required details. Existing users can log in using their credentials.
- **Complete the Enrollment Form**
  - Fill out the necessary information, including personal details and any prerequisites if applicable.
- **Submit Payment (if applicable)**
  - Proceed to the payment section to pay the course fee, if required.
- **Receive Confirmation Email**
  - After successful enrollment, you'll receive a confirmation email with access details.
- **Access Course Materials**
  - Log into your account to access the course content, including modules, resources, and community forums.
- **Complete Modules and Quizzes**
  - Progress through each module at your own pace. After each module, complete the graded quiz to assess your understanding.
- **Final Graded Quiz**
  - Upon completing all modules, take the final graded quiz to evaluate your comprehensive knowledge of the course material.
- **Earn Certification and Badge**
  - After successfully passing the final quiz, you'll be awarded a digital certificate and badge, which you can share on professional platforms to showcase your achievement.
- **Join the Exclusive Community**
  - Gain access to an exclusive community of learners and professionals to network, share insights, and continue your learning journey.

# Terms and Conditions

This section outlines the rules, guidelines, and obligations governing the agreement. It ensures clarity and mutual understanding between all parties involved, providing a framework for compliance and dispute resolution.

## Eligibility

This course is open to individuals of all backgrounds interested in Learning about Emerging technologies like Data Analysis , AI , ML , DS , AR , VR , MR , Blockchain, IoT , Drone Technologies , NLP and Computer Vision.

## Course Duration

The course will be self paced and it will be depended completely upon the learner.

## Certification

Certification will be provided upon successful completion of the course.

## Refund Policy

For online courses there is no provision for refund until or unless course price exceeds 5,000 INR.

## Graded Quizzes

Graded quizzes are important for testing and verifying learners' understanding. There are two versions of graded quizzes: the first version has a minimum passing criterion of 60%, while the final graded quiz requires a passing score of 70%. After attempting and clearing all the quizzes, students will be eligible for the final certification and badge.

## Intellectual Property

All course materials, including presentations, projects, and assignments, are the intellectual property of SIN School of AI and are for personal use only breaking this can lead to legal action immediately .

## Code of Conduct

Students must maintain a respectful and professional attitude towards instructors and fellow participants. Any disruptive behavior will result in immediate removal from the course without a refund.

## Changes to the Course

SIN School of AI reserves the right to modify course content, schedule, and instructors as needed but will be applicable from the next batch for the same.

## Liability

SIN School of AI is not responsible for any personal injury, loss, or damage of belongings during the course.

# For inquiries, contact us.



[www.sintechnologies.in](http://www.sintechnologies.in)

[ceo@sintechnologies.in](mailto:ceo@sintechnologies.in)

+91 9511506378 , +91 7357288703

